



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 165]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2002/माघ 24, 1923

No. 165]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2002/MAGHA 24, 1923

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2002

का. आ. 198(अ).—नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5वां) के खण्ड 5 के उप-खण्ड (1) और खण्ड 19 के उप-खण्ड (2) की धारा (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) नियम, 2002 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 में नियम 10 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“10. अध्यक्ष.— अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी :—

- | | |
|--------------------------|---|
| (i) भर्ती की पद्धति | : प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संधिदा सहित) |
| (ii) अर्हताएं, अनुभव आदि | : केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/कृषि विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संधिदा सहित) जो— |
- (क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करते हों,
अथवा
(ii) 14,300-400-18,300 अथवा समतुल्य वेतनमान के पद में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हों, और,
 - (ख) निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी अथवा जीव विज्ञान में पी.एच.डी. उपाधि के साथ बागवानी विकास/अनुसंधान उत्पादन/विस्तार में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव जिसमें नारियल विकास के क्षेत्र में 5

(1)

वर्षों का अनुभव शामिल है

अथवा

प्रबन्धन में मास्टर की उपाधि के साथ कम से कम

20 वर्षों का प्रबन्धकीय अनुभव जिसमें बागवानी

विकास में 10 वर्षों का अनुभव जिसमें से 5 वर्षों का

अनुभव नारियल विकास के क्षेत्र में होना चाहिए।”

टिप्पणी:—प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 5 वर्षों से अनधिक अथवा प्रत्याशी के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी।

[फा. सं. 4-29/2001-बागवानी-6]

डी. के. राय, अवर सचिव

पादटिप्पण :—दिनांक 28 जनवरी, 1981 की अधिसूचना सा.का.नि. 34(अ) के अनुसार यह मूल नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

**MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2002

S.O. 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 and clause (o) of sub-section (2) of section 19 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Coconut Development Board Rules, 1981, as follows, namely :—

1. (1) These rules may be called the Coconut Development Board (Amendment) Rules, 2002.
(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In the Coconut Development Board Rules, 1981, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely :—

“10. Chairman.—The Chairman shall be appointed by Government of India in accordance with following provisions :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (i) Method of Recruitment | : On deputation (including short-term contract) |
| (ii) Qualifications, experience etc. | : Deputation (including short-term contract) from amongst Officers of Central/State Governments/Union Territories/recognised research Institutions/Agricultural Universities/Public Sector Undertakings— |

- (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or
(ii) with 5 years regular service in post in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 or equivalent and,

- (b) possessing educational qualifications and experience as under :—

Ph.D in Horticulture or life sciences from a recognised University with at least 15 years' experience in horticulture development/ research/production/extension including 5 years' experience in the field of coconut development

OR

Master's degree in management with at least 20 years' managerial experience including 10 years in horticulture development of which 5 years' experience should be in the field of coconut development.”

Note—The period of deputation shall ordinarily not exceed 5 years or till the candidate attains the age of 60 years, whichever is earlier.

[F. No. 4-29/2001-Hort. VI]

D. K. ROY, Under Secy.

Food Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification GSR No. 34(E), dated the 28th January, 1981.